



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 12 राँची, गुरुवार

17 पौष, 1937 (श०)

7 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

शुद्धि पत्र

31 दिसम्बर, 2015

संख्या-1/स्था./श.स्था.नि.-24/2015/न.वि.-...**4871**--विभागीय अधिसूचना संख्या-4077, दिनांक-04 नवम्बर, 15 के स्तंभ-i के क्रम संख्या-15 के सम्मुख स्तंभ-ii, iii एवं iv में अंकित विवरणी को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापित स्थान
i	ii	iii	iv
15	श्री गजानन्द राम, नगर निवेशक	नगर निवेशक, राँची नगर निगम तथा नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार	नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन (मुख्यालय), नगर विकास एवं

		(अतिरिक्त प्रभार) एवं नगर निवेशक, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (अतिरिक्त प्रभार)	आवास विभाग, झारखण्ड
--	--	--	------------------------

2. अधिसूचना संख्या-4077, दिनांक-04 नवम्बर, 2015 का शेष अंश यथावत रहेंगे।
3. उक्त विभागीय अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
